

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 21 September 2026

B.Arch की पढ़ाई के लिए 40 लाख तक मिलेगा एजुकेशन लोन, जाने पूरी प्रक्रिया और फायदे ।

Publisher

Published on 30 Jun 2025



बिना गारंटी 7.5 लाख तक का लोन, फीस से लेकर हॉस्टल और प्रोजेक्ट खर्च तक कवर, आसान चुकाने की सुविधा ।

अगर आप **B.Arch (बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर)** में करियर बनाना चाहते हैं और पढ़ाई का खर्च आपकी चिंता है, तो राहत की बात है कि अब भारत के ज्यादातर बैंक इस कोर्स के लिए **एजुकेशन लोन** की सुविधा दे रहे हैं । इससे छात्र बिना आर्थिक दबाव के अपने सपनों की पढ़ाई कर सकते हैं ।

B.Arch एक 5 वर्षीय प्रोफेशनल कोर्स होता है, जिसमें कुल खर्च लाखों में पहुंच सकता है । ऐसे में **एजुकेशन लोन** छात्रों के लिए एक मजबूत सहारा बनता है ।

कितनी रकम तक मिल सकता है लोन ?

1. सरकारी और निजी बैंक आमतौर पर B.Arch के लिए ₹7.5 लाख से लेकर ₹40 लाख तक का लोन देते हैं ।
2. ₹7.5 लाख तक का लोन अक्सर बिना गारंटी के दिया जाता है ।
3. इससे अधिक राशि के लिए को-एप्लिकेंट या गारंटी आवश्यक होती है ।
4. कुछ बैंक विदेश में B.Arch करने के लिए भी विशेष योजनाएं चलाते हैं ।

लोन किन खर्चों को कवर करता है ?

B.Arch एजुकेशन लोन केवल कॉलेज फीस तक सीमित नहीं होता, इसमें शामिल होते हैं:

१. ट्यूशन फीस
२. हॉस्टल शुल्क
३. प्रोजेक्ट वर्क और लैब चार्ज
४. किताबें, लैपटॉप और यूनिफॉर्म
५. परीक्षा शुल्क
६. एजुकेशनल ट्रैवल और ट्रेवल एक्सपेंस

कौन कर सकता है आवेदन ?

१. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए ।
२. 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है ।
३. चयनित कोर्स किसी UGC, AICTE या COA मान्यता प्राप्त संस्थान में होना चाहिए ।
४. को-एप्लिकेट के रूप में माता-पिता/अभिभावक जरूरी होते हैं ।

ब्याज दर और लोन चुकाने की सुविधा:

१. ब्याज दर 8% से 12% के बीच होती है ।
२. सरकारी बैंक आमतौर पर कम ब्याज पर लोन देते हैं ।
३. लड़कियों के लिए कुछ योजनाओं में ब्याज में छूट मिलती है ।
४. कोर्स पूरा होने के बाद 6 से 12 महीने का मोरेटोरियम पीरियड मिलता है ।
५. इसके बाद ईएमआई शुरू होती है, जिसे छात्र नौकरी लगने के बाद चुका सकते हैं ।

किन बैंकों से मिल सकता है लोन ?

सरकारी बैंक :

१. भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
२. पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
३. केनरा बैंक
४. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
५. बैंक ऑफ बड़ौदा

निजी बैंक और संस्थान :

१. HDFC Credila
२. ICICI Bank
३. Axis Bank
४. Avanse Financial

महत्वपूर्ण सलाह:

लोन लेने से पहले बैंक की शर्तें, प्रोसेसिंग फीस, ब्याज दर और पूर्व भुगतान शर्तें अच्छी तरह समझ लें । इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर भी एक साथ कई बैंकों में आवेदन किया जा सकता है ।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com